



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 220]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 25, 1979/ज्येष्ठ 4, 1901

No. 220]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25, 1979/JYAISTHA 4, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आवृत्ति

नई दिल्ली, 25 मई, 1979

का. आ. 317 (अ)/18 एफ.बी/आई. डी. आर. ए./79.—अतः भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के आवृत्ति, सं. का. आ. 85(ई)/18कक/आई. डी. आर. ए./78, तारीख 4 फरवरी, 1978 द्वारा मैसेर्स श्री रामा सुगर एवं इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बॉबिली (जिला श्रीकाकुलम-आन्ध्र प्रदेश) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम के सीनी एकक का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 3 वर्ष की अवधि के लिए कर लिया गया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के संबंध में इस अनुसूचित उद्योग के उत्पादन की मात्रा को गिराने से रोकने की दृष्टि से लोकीकृत में बँसा करना आवश्यक है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि इस आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी सीनियों, संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों व्यवस्थाओं, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का जो (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत धारित्वों से भिन्न हैं)

जिसका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कंपनी एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कंपनी को लागू हो, प्रवृत्त एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रौद्योगिक या उद्योग होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाह्यताएं तथा धारित्व उक्त अवधि तक निलंबित रहेंगे।

[स. का. 4(4)/78-सी यू सी]

पी. सी. नाथक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th May, 1979

S.O. 317(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India, Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S.O. 65(E)/18AA/IDRA/78 dated 4-2-78, the management of the unit of Messrs Sri Rama Sugars and Industries Limited manufacturing sugar at Bobbili in the district of Srikakulam in the State of Andhra Pradesh (herein after referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under clause (b) of sub-section (1) of Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of three years ;

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so

to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the schedule industry, namely, the sugar industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to liabilities to banks and

financial institutions) to which the said industrial undertaking or the Company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising there under before the said date shall remain suspended for the said period.

[F. No. 4/4/78-CUC]

P. C. NAYAK, Jt. Secy.